

WHAT IS FOOD?

> Food makes your body work, grow and repair itself. The kind of food you eat can affect the efficiency of these processes. Body function and the food that sustains it is infinitely complex. Food is fast one of the most complicated sets of chemicals imaginable.

Getting to know which nutrients are in which foods can help you to understand somethin' of this complex relationship between your food and your body.

20
SATURDAY

August
233-133
34TH WEEK
'16

CARBOHYDRATE

(ENERGY YIELDING NUTRIENTS)
अमी - ऊर्जादाता भोजन तत्व।

JUNE 2016

Sun	5	12	19	26	Sun	31	3	10	17	24
Mon	6	13	20	27	Mon	4	11	18	25	
Tue	7	14	21	28	Tue	5	12	19	26	
Wed	1	8	15	22	Wed	6	13	20	27	
THU		16	23	30	THU	7	14	21	28	
Fri		1	8		Fri	1	5	12	19	
Sat	4	11	18	25	Sat	2	9	16	23	30

JULY 2016


i) CARBOHYDRATE - DEFICIENCY

मार्गीय आहार में अद्वितीय श्रृंखला याकूबी के अन्धिकृत होता है। यहाँ के लोगों में से कामगार 70-80% जो इसी अवकृत मोज्य पद्धति से प्रभावित हैं। यह बुनायी प्राप्त होता है और इसका उपयोग चारों हाथों से प्राप्त होता है। यहाँ का अधिकारी ने अपने दो बच्चों को एक हाथाव से उत्तर एशियन पर ले लिया है, जो अपनी दो बच्चों को उपयोग करके उत्तर एशियन पर ले लिया है। यहाँ के लोगों में से कामगार 70-80% जो इसी अवकृत मोज्य पद्धति से प्रभावित हैं। यह बुनायी प्राप्त होता है और इसका उपयोग चारों हाथों से प्राप्त होता है। यहाँ का अधिकारी ने अपने दो बच्चों को एक हाथाव से उत्तर एशियन पर ले लिया है, जो अपनी दो बच्चों को उत्तर एशियन पर ले लिया है।

21 Sunday

उत्तर मोज्य से उत्तर
भारी में से उत्तर 50
उत्तर इसी दृष्टि से उत्तर

Notes



22

August

'16 235-131
35TH WEEK

MONDAY

Sun	7	14	21	28
Mon	8	15	22	29
Tue	9	16	23	30
Wed	10	17	24	31
Thu	11	18	25	
Fri	12	19	26	
Sat	13	20	27	

Sun	4	11	18	25
Mon	5	12	19	26
Tue	6	13	20	27
Wed	7	14	21	28
Thu	8	15	22	29
Fri	9	16	23	30
Sat	10	17	24	

शारीरिक द्रव्यों की रासायनिक संस्थान

08.00 (Chemical composition of carbohydrates)

09.00 शिमान्त

10.00 औं शिमान्त में शारीरिक द्रव्यों की रासायनिक संस्थान (O) है। इनमें शारीरिक द्रव्यों की रासायनिक संस्थान (C) होती है। शारीरिक द्रव्यों की रासायनिक संस्थान (H) होती है।

11.00 12 शिमान्त में शारीरिक द्रव्यों की रासायनिक संस्थान (O) होती है। शारीरिक द्रव्यों की रासायनिक संस्थान (C) होती है। शारीरिक द्रव्यों की रासायनिक संस्थान (H) होती है।

13.00 1 मात्रा 1 मात्रा 0 2 मात्रा 4 मात्रा
शिमान्त में शारीरिक द्रव्यों की रासायनिक संस्थान (O) होती है। शारीरिक द्रव्यों की रासायनिक संस्थान (C) होती है। शारीरिक द्रव्यों की रासायनिक संस्थान (H) होती है।

① NUTRIENT - पोषक तत्व

① These are 6 types of

NUTRIENT:

शारीरिक द्रव्यों की रासायनिक संस्थान

① CARBOHYDRATES - शरीर की ऊर्जा का स्रोत है। LIPIDS

② FATS - वसा / निपोटीन

③ PROTEINS PROTEIN - प्रोटीन

④ VITAMINS - विटामिन

23

आखोदाहूडे रा शास्त्री की (कृष्णपुर)

August 2016
Tuesday 16

CHEMICAL CLASSIFICATION OF CARBOHYDRATES

(MONOSACCHARIDE)
(DISACCHARIDES)


(POLYSACCHARIDES)

प्रीति
विजय

सुधार
विजय

प्रीति
विजय

CARBOHYDRATE



2 13 18 23 30
3 18 27 34
4 19 28 35
5 20 29 36
6 21 30 37
7 22 31 38
8 23 32 39
9 24 33 40

24
WEDNESDAY

કાર્બોજ પાય: સમી કવાદુ પદોદ્ધતિ પે
પાય ભાગ 1 ૩૧ કાજ પારીન
શાખાનો ૨ ૫૧ કાજ મે વિગત,
તાજી જો તણું :-

ii) છાકુર પ્રયત્ન મૌલ્ય પદોદ્ધતિ -

શવચુર, ગાંના, ચુકુંદર, ગ્રાંબર,
દ્વીહાર, શીથા, શીર્ષાશી, અંબીર, હંરા
માર્વ.

iii) રટાન્ડુંકર મૌલ્ય - પદોદ્ધતિ -

આદિ કુતર કુદ - મૂલ, કીજ, હરા
અનાબ, ચાંક, લાંબા, વાંદા, મા
જાંદ, માંગ.

-ચિંદી, મુરા, જી, શીથા અનાબ

7	18	21	28
8	25	22	29
9	26	23	30
10	27	24	31
11	28	25	
12	29	26	
13	30	27	

SEPTEMBER 2016				
Sun	1	2	3	4
Mon	5	12	19	26
Tue	6	13	20	27
Wed	7	14	21	28
Thu	8	15	22	29
Fri	9	16	23	30
Sat	10	17	24	

August

'16 242-124
36TH WEEK

29

MONDAY

Food

Chemicals in food

Physical form of food

Acid or alkaline

chemicals in food

Food is composed of many different chemical substances

"Macronutrients" (major nutritional components that are present in relatively large amounts, such as protein), "micronutrients" (major nutritional components that are present in relatively small amounts, such as vitamins), water and roughage.

30

TUESDAY

August

2014

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
MON	6	13	20	27				31	3	10	17	24	31	2014
TUE	7	14	21	28				4	11	18	25	1	8	25
WED	1	8	15	22	29			5	12	19	26	3	10	17
THU	2	9	16	23	30			6	13	20	27	4	11	18
FRI	3	10	17	24				7	14	21	28	5	12	19
SAT	4	11	18	25				2	9	16	23	1	8	15

The chemical nature of food is changed by storage, preservation and, especially, by cooking. Food chemicals can also interact amongst themselves within the body.

Physical form of food -

Food is also more than just the chemicals it contains. Its physical characteristics are important. The size of food particles can affect the extent to which nutrients are digested and made ready for absorption by the body.

31

August

'16 244-122
36TH WEEK

WEDNESDAY

1	8	15	23	30	Mon	5	12	19	26
2	9	16	24	31	Tue	6	13	20	27
3	10	17	25		Wed	7	14	21	28
4	11	18	26		Thu	1	8	15	22
5	12	19	27		Fri	2	9	16	23
6	13	20	27		Sat	3	10	17	24

iii) Acid or alkaline -

The acidity and alkalinity of food are physical properties often thought to be important. In fact, they are only important insofar as they might alter the rate of emptying of the stomach, digestion in the small bowel and the acidity or alkalinity of the urine. Our body can cope with a wide range in food acidity and alkalinity without much problem.